

August 02, 2019

To,
The Manager
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
Phirozee Jeejeebhay Tower
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE Scrip Code:533260

To,
The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai-400 051
NSE Symbol: careerp

Sub: Advertisement published in the news paper

Dear Sir/Madam,

In compliance with the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing herewith Board Meeting Notice advertisement published in the newspaper namely Financial Express and Jansatta.

Thanking you,

For Career Point Limited

Tarun Kumar Jain

GM (Corporate & Legal Affairs) & Co. Secretary

Enclosed: As above

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 जुलाई, 2019

शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट, सूचकांक 463 अंक गिरा

462.80 अंक यानी 1.23 फीसद

की गिरावट के साथ 37,018.32

टटकर 10.980 अंक पर बंद

हुआ। मार्च के शुरुआती दिनों के

बाद दोनों सुचकांक का यह

न्युनतम स्तर है। सुचकांक में

शामिल शेयरों में वेदांता को

सर्वाधिक 5.55 फीसद का

नुकसान हुआ। उसके बाद

क्रमशः टाटा मोटर्स, भारतीय

नोवा आयरन एंड स्टील लिमिटेड

पंक्षेत्रत कार्यालय : ग्राम- डामोनी, तहसील- चेलहर,

विला- विलासपुर, शरीसगढ

CIN: L02710CT1989PLC010052

f-मेल : rai_nist2007@yahoo.com

दुरभाष : 077-52285217 फैक्स : 077-52285213

वेदनावर : www.novaironsteel.com

निदेशक मंहल की बैठक 13.08.2019 को होगी.

तिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ 30.06.2019 की

समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम

पर चर्चा होगी। मृचना कंपनी की वेबसाइट तथा

पैन इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत वर्षकायः १११. १वां यसः न्यू विस्ती शकतः

27. क्षप्रसमा सेव. वर्ष दिख्यी-110001

्यूक्तम्ब एसदञ्जरा सुचित किया जाता है कि सेवी (सुवीयन बाध्यताए

एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनिधम, २०६ के विनिधम ४७

एवं अन्य लागु विनिधम के साथ प्रक्रित विनिधम 20 के

प्रावधानों के अनुसरण में कष्पनी के निदेशक मंद्रत की बैठक

विकास 10 सवस्य 2019 को सप. 200 क्ये रूपानी कं

पंजीकृत कार्यालय १११, १वं तल, ग्यू दिल्ली क्रउस, २१,

बरायम्ब रोड, नई दिल्ली-19001 में आयोजित की जाएगी

जिसमें अन्य बालों के साथ-साथ 30 पूरा 2019 को पानापा

विनावी और पील नाम के लिए कमानी के सलेकापरिकिय

विश्वीय विश्वासी और एजेंद्रा में वर्षित अनुसार यावसाय की

अन्य ओई मद पर विचार एवं अनुमोदन कर दिकाई में लिया

क प्यनी

www.panindiacorp.com और स्टॉक एक्सचेंजॉ, जब

कण्पनी के शेगर सुचीबढ़ है की वेबसाइट

निद्ध सिनिटेव

पंचीकृष वर्षकंतक ७११, ७वं वस. न्यू दिस्सी श्रमस

27. बाचलम्ब चेव. पर्व दिक्की-110001

GREET L72200D L1992 PLC 241971

(तदहार तृत्तित किया जाता है कि तेवी (तृत्तीयन

भाष्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं। विनिधन् 2016 कं

विनिधन 47 एवं अध्य साम विनिधन के ताब प्रतित

विनिधम 🖎 के प्रावधानों के अनुसरण में कप्पनी की

विदेशक पंजल की बैठक **प्रतिकर, 10 समस्त, 2019 को**

पादः 11.30 क्ये कप्पनी के पंजीकृत कार्यासय 711, 7यां

તસ, પ્લૂ દિસ્સી કાંગ્સ, 27, વાલસાપવા લેક, વર્ફ

दिस्ती—110001 में आयोजित की जाएगी जितमें अन्य

बातों के साव-साव 30 प्राप्तू , 2019 को प्राप्ता सिन्हरी

क्षेर क्षेत्र ग्वर से लिए सम्पन्त से क्षतंत्व्वपरीविय निर्पाप

रिक्रमों और एजेंग्रा में वर्षित अनुसार व्यवसाय की अन्य

कोई पट पर विचार एवं अनुषंदन कर रिकार्ज में शिया

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bits.net.in और

रटोंक एक्सचेंज़ॉ, जड़ांक पनी के शेवर सूची बद्ध है, की

कृषे निद्य सिनिदेव

MSTC

कषानी रासिक एवं अनुपासन अभिकारी

चुरेन्द्र विंठ संबर

वैवसाइट www.bseindia.com पर भी उपस्थ है।

CIN: L27320WB1964GOI02621

GSTIN: 19AACCM0021E1Z4

११६मी, य जे मी. बोस रोड, फोलफाता-700 020, भारत

विसाइट : www.matcindia.co.in, पीन : 2281-9627/308

世 中門: cosec@mstcindia.co.in

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सुवीकरण

दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

अधिनियम, 2015 के अधिनियम 29 एवं

47 के प्रावधानों के अनुसार सुधित किया

जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की

बैठक मंगलवार, 13 अगस्त, 2019 को

कोलकाता में अन्य विषयों के अतिरिक्त 30

जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए

एकल तथा समेकित अनांकेक्षित विलीय

परिणामी पर विचार एवं अनुमोदन करने के

लिए निर्धारित की गयी है। उपयुक्त जानकारी

कंपनी की वेबसाइट www.mstcindia.co.in

तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.

nseindia.com तथा www.bseindia.com

प्रपन्न सं. आईएनसी-26

[कपारी (तिगपत) नियमहाली, 2014 के नियम

30 के अनुपालन मैं]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कप्पती के पंजीकृत

कार्यालय के परिवर्तन के लिये

सपाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विजापन

केल सरकार, उत्तरी क्षेत्र के सपक्ष

कपनी अधिनियम. 2013 की धारा 13 की उप धारा

(4) तथा कप्पनी (निगपन) नियपाहाती. 2014 के

नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉन (ए) के मामले

काई पैन्युफैक्वरिंग इंडिया प्राईटीर लिमिटेड शिसका

पर्गोकृत कार्यातय 1105. अशोका इस्टेट. 24.

बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001. भारत में है. के

एतदुद्वारा आप जनता को सुवित किया जाता है कि

'रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से '' रागस्मान राज्य'' में उसके

पर्गोकृत कार्यातय की परिवर्तित करने के तिए कपनी को

सक्षम बनाने के लिए 01 अगस्त. 2019 को आयोगित

असाधारण आगसभा में मारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार

कपनो के पेपोर्रेंडप ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की

पुष्टि के हीए कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के

अवगंत यह कपनों केंद्र सरकार के पास आवेदन करने

कपनी के पर्शकित कायांत्रय के इस प्रस्तावित परिवर्तन

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो. वे

एपसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर

निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिला करें अभवा उसके

नीवे वर्णित पर्गीकृत कायांतय में आवेदक कपनी की

उसको एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन को

तिथि से जौटह दिनों के भौतर अपने हिन को प्रकृति नमा

आपनि के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपम-पत्र

द्वारा समिमित अपनी आपनि क्षेत्रीय निर्देशक, उनरी क्षेत्र,

बी-2 विग. २रा तता. पर्यावरण भवन. सीगीओ

कॉप्प्लैक्स. नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा

1105, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नर्

काई पैत्युफैक्चारिंग इंडिया प्राईवेट लिपिटेड

राजेश उपिया शंकर पाण्ड्या प्रबंध निदेशक

कराए या पत्रीकृत डाक से पेर्नेः

दिल्ली-110001, भारत

कृते एवं के लिए

DIN: 07512457

स्थानः गुरुप्राप

तिबि: 01 अगस्त, 2019

हस्ता ८-

का प्रस्ताव करनी है।

कते एमएसटीसी लिमिटेड

(अजय कुमार राय)

अनुपालन अधिकारी

कंपनी सचिव एवं

हस्ता /-

...... आवेदक

पर भी उपलब्ध है।

स्थानः कोलकाता

गरीख: 02.08.2019

कृत्ये पेन इक्किया कॉरपोरेजन विक्रीटेक

क्रम्पनी पनिय स्वं अनुपासन अविकारी

राजनी नानी

www.bseindis.com पर भी उपलब्ध है।

POPE 01.08.2019

रवान नई दिस्सी

রিখি ০108 2019

एम एस टी सी

\$755 L722000 L1994 PLC017510

वारते नोवा आवरन एंड स्टील लिमिटेड

(धीरव कुमार)

कंपनी सचिव

स्टॉक एक्सचेंत्र की वेबसाइट

www.bseindia.com पर उपाध्या है।

त्यान ः नई दिल्ली

दिनांक: 01.08.2019

एअरटेल का स्थान रहा।

वहीं, निपटी 138 अंक

अंक पर बंद हुआ।

मुंबई, 1 अगस्त (भाषा)।

शेयर बाजारों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। धातु, बैंक और प्रौद्योगिकी शेयरों में भारी बिकवाली से बंबई शेयर बाजार का सुचकांक जहां 463 अंक का गोता लगा गया वहीं नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 11,000 अंक से नीचे बंद हुआ। दोनों शेयर सुचकांक पांच महीने के न्युनतम स्तर पर बंद हुए।

कारोबारियों के अनुसार स्टेट बैंक, येस बैंक, भारती बनियादी उद्योगों और राजकोषीय घाटे के कमजोर आंकड़े तथा अमेरिकी केंद्रीय बैंक का ब्याज दर को लेकर आक्रमक रुख का शेयर बाजारों पर असर पड़ा। इसके अलावा विदेशी पंजी निकासी जारी रहने और कंपनियों के कमजोर तिमाही परिणाम से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। कमजोर शुरूआत के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सचकांक कारोबार समाप्ति से पहले एक समय 750 अंक से अधिक टूट गया था। अंत में यह

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 (कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 केंद्र सरकार के समझ क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6)(ए) के मामले में

अरका सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-73, तरंग अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट न0, 9 पटपडगंज नई दिल्ली-110092 के मामलें में

एतदद्वारा सामान्य जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा राज्य" से "उत्तर प्रदेश राज्या में स्थानान्तरित करने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 25 मई. 2019 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक / असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकृत, केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हए, इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2 पलोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय

सी-73, तरंग अपार्टमेन्ट्स, प्लॉट न0.- 9 पटपढ़गंज नई दिल्ली 110092 कृते और जनकी ओर

अरका सॉल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड स्थानः दिल्ली (संजय कुकरेजा) दिनांक: 02.08.2019 DIN: -05253221 पताः फ्लैट नं0. 301, टॉवर-10, विपुल बेलमोंटे गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 53, गुरूगांव, हरियाणा, 122011

'फॉर्म सं. आईएनसी–25ए' पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में रूपांतरण करने के लिए समाचारपत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, कॉर्पीरेट मामली के

मत्रालय उत्तरी क्षेत्र कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 14 और कंपनीज (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामलें में

मेसर्स इंडियन माइक्रो इंटरप्राइजेज डेवलोपमेन्ट **फाउंडेशन**, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-32 तारा कीसेंट, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली

-110016 में हैं के मामलें में आम जनता को एतदहारा सुचित किया जाता है कि

कंपनी को प्राइवेट लिमिटेंड, गैर-लाभ की दृष्टि से धारा 8 कंपनी में परितर्वन हेत् कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के साथ पठित उपरोक्त नियमों के अंतगर्त केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छक है, परितर्वन के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के संदर्भ में 27 जुलाई, 2019 को अयोजित अतिविशिष्ट सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया है। यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के प्रस्तावित

परिवर्तन / रिथिति से प्रभावित होने की संभावना है तो वह शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से घोदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2 पलोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003' पर पंजीकृत ढाक द्वारा सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बी-32, तारा क्रीसेंट, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली, -110016 के पते पर भेजी जानी चाहिए

कृते और इंडियन माइक्रो इंटरप्राइजेज ढेवलोपमेन्ट फाउंडेशन हस्ता /-स्थानः नई दिल्ली अशोक खोसला तिथिः 02.08.2019 DIN: 00385701 पंजीकृत कार्यालय पताः बी-32, तारा क्रीसेंट, कृतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016

फॉर्म सं0. आईएनसी-26 केंद्र सरकार के समक्ष

उत्तरी क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) खंड (ए) के मामले में

प्रियंका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय न0. सी-55/2, ओखला इंडस्टीयल एरिया नई दिल्ली 110020 के मामलें मेंयाचिकाकर्ता एतदद्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता

है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "र्कनाटक राज्य" में रथानान्तरित करने हेत् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत शुक्रवार, 12 जुलाई, 2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह निवेशक शिकायत फॉर्म फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या शपथ पत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (बौदह) दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, 2 पलोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को सुचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के

निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर भेजें पंजीकृत कार्यालयः २० सी-५५/२, ओखला इंडस्टीयल एरिया, नई दिल्ली 110020

> कृते और आवेदक की ओर से प्रियंका इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड हस्ता/-

> > DIN: 00206605

शिवहारी जमनाधार अग्रवाल) स्थानः नई दिल्ली निदेशक

PG पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025 फोन: 91-120-2569323 ईमेलः investors@pgel.in; वेबसाइटः www.pgel.in

CIN: L32109DL2003PLC119416

पंजी, कार्यालयः डीटीजे209. 2 पलोर, डीएलएफ

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, 10/08/2019 को साय 4:30 बजे कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईखीसी इंडरिट्यल एरिया, सुरजपुर, ग्रेटर गोएडा, (यू.पी.) 201306 में आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जायेगा। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट- www.pgel.in पर

भी उपलब्ध है तथा इसे स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एव नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है। आगे सुचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए विंडो सोमवार 12 अगस्त, 2019 तक बंद रहेगी।

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड हस्ता/-स्थानः ग्रेटर नोएडा (प्रमोद गुप्ता) तिथि: 01.08.2019 प्रबंध निदेशक

results for the guarter & 3 Months ended 30" June 2019.

सपन्ति का कब्जा दिनाक 27 जुलाई, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

उस्तर राकेश कुमार तियारी का प्लॉट, पूरव 20 कीट बाँडी रोड

परिचम आरजी नवर 735 का भाग, दक्षिण राधे श्याम शर्मा का प्लॉट

धारा 13 की उप-धारा (a) के प्रायधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

Dated: 1.08.2019

करने की माग की गई थी।

00279 में आरजी नबर 735 का जुज भाग।

ई-मेल: cic@cbi.gov.in

वेबसाईट: http://cbi.nic.in

दूरमाष: 24368638/24368641

कारपोरेट ऋणी का नाम

निगमित/रजिस्ट्रीकृत है

की अनुमानित तारीख

नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यां

पास रजिस्ट्रीकृत पता और ई-मेल

दावे प्रस्तृत करने की अंतिम तारीख

अभिनिश्चित धारा २१ के उपधारा (६क) के

खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि

के रूप में कार्च करने के लिए अभिलक्षित

दिवाला व्यावसादिकों के नाम (प्रत्येक वर्ग

अपने दावे प्रस्तृत करने की अपेक्षा की जाती है।

लिए अपनी पसन्द प्ररूप गक में उपदर्शित करेगाः लागू नहीं।

दावों के मिथ्या या भामक सबत प्रस्तृत करने पर शस्तियां लाग् होंगी।

के लिए तीन नाम)

14. (क) सुसंगत प्ररूप और

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 01.08.2019

अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा लागू नहीं

विन्सी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों लागू नहीं

कारपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख

फैक्स: 24368639,

तिथि : 01-08-2019

स्थान : इलाडाबाद

PUBLIC NOTICE

I, Laxmi Narain S/o Rameshwar Dass Gupta, have change my Name and Residential Address from House No. G-1-98, Uttam Nagar, New Delhi - 110059 to Laxmi Narayan Gupta S/o Rameshwar Dayal R/o 109, Ground Floor, A-2 Block, Janakpuri, Janakpuri A-3, Janakpuri B-1, Rajouri Garden,

मार्बल फिनवेस्ट लिमिटेड रंगीपुत बार्यालय : ३. इंडस्ट्रियल एरिया, फेन-१ चंडीगड्

West Delhi, New Delhi - 110058,

Mobile 9810082323

CIN: L65910CH1984PLC021285 f-in : marblefinltd@gmail.com वेषसाहर : www.marblefinvest.com इस्माण । 0172-3911701/61 फिक्स । 0172-3911704

निदेशक मंहल की बैठक 14.08.2019 को होगी निसमें अन्य विषयों के साथ-साथ 30.06.2019 की समाप्त तिमाडी हेत् अलेखापरीक्षित विश्रीय परिणाम पर चर्चा होगी। सूचना कंपनी की वेबसद्धट तथ स्टॉक एक्सचेंत्र की वेबसाइट : www.msei.in पर उपलब्ध है।

वास्ते मार्थल फिनवेस्ट लिमिटेड शरका/ (आर.पी. गोयल) स्थान : चंडीगड

By Order of the Board

Dr. Naveen Chaudhri

Managing Director

प्राधिकृत अधिकारी

थानाध्यक्ष : 😤

9013635062

थाना आई.पी. एस्टेट, दिल्ली 🖁

फोर्च डायमेंशन सोलुशन्स लिमिटेड

(30.07.2019 को प्राप्त ईमेल)

ईमेल आईडी- csjaswantsingh@gmail.com

ईमेल आईडी- fcs.jaswant@gmail.com

वेवलिक: https://ibbi.gov.in/downloadform.html

शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली 110015

अंतरिम समाधान व्यावसायिक का नाम और हस्ताक्षर

शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली 110015

फोन : 011-23370928, ह

दिनोक : 01.08.2019

NMC

NOIDA MEDICARE CENTRE LIMITED

CIN-L24239DL1988PLC031972

Regd. Office: E-485, 2nd Floor, Near Old Police Station,

Opposite Punit Apartment, New Ashok Nagar, Delhi - 110096

NOTICE

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be

held on Thursday, the 8" day of August, 2019 at its Hospital: 16-C, Block-E, Sector-30,

Noida-201301, at 11.00 A.M. to consider and take on record un-audited financial

कब्जा सूचना [नियम ८(1)] (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहरताक्षरी ने केन किन होन्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, विस्तीय आस्तियों का

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रयत्नि अधिनियम्, 2002 के अधीन और उक्त

अधिनियम तथा प्रतिभृति हित (प्रयर्तन) नियमायली 2002 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक

नाग सूचना दिनाकित 13-05-2019 जारी की थी जिसमें कर्जदार श्रीमती एरिम जायसवाल एवं

श्री सर्वेश कुमार जायसवाल से सूचना ने यणित बकाया राशि फ. 25,07,737 / - तथा यसूती

की तिथि तक आगे सविदारमक दर पर ब्याज का भूगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर

वर्जदार उक्त राशि चुकाने में असकल रहे हैं, एतदुहारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दें

ज़िली है कि अधोहरताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमायली 2002 के नियम 8 के साथ पठित

उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह। नीचे यर्णित

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आरितयों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की

विशेष रूप से कर्जदार को तथा सर्व साधारण को इस सपस्ति के सबध में सव्यवहार नहीं करने हेत्

साक्धान किया जाता है और सपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड

अचल सम्पतित का विवरण

गुमशुदा व्यक्ति की तलाश

प्लास्टिक की सैंडल पहने हुए है, दिनांक 23.07.2019 से थाना आई.पी.

एस्टेट, दिल्ली के क्षेत्र से लापता है। इस संदर्भ में डीडी सं 67-ए

यदि किसी भी व्यक्ति को इस गुमशुदा व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या

सुराग मिले तो थानाध्यक्ष आई.पी.एस्टेट को सूचित करने की कृपा करें:-

फॉर्म ए

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कोंपीरेट व्यिक्तियों के लिए दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गती

फोर्थ डायमें शन सोल्शन्स लिमिटेड

स्संगत विशिष्टया

प्राधिकरण, जिसके अधीन कारपोरेट ऋणी आरओसी - नई दिख्ली

कारपोरेट ऋणी के संबंध में दिवाला प्रक्रिया | 25 जुलाई, 2019

दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने 21 जनवरी, 2020

अंतरिम समाधान व्यावसाविक के रूप में श्री जसवंत सिंह

10. अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ आईआरपी- जसवंत सिंह

कारपोरेट पहचान सं. / कारपोरेट ऋणी L72900DL2011PLC221111

17.06.2011

कारपोरेट ऋणी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **रजिस्ट्रीकृत कार्यालय**ः डीएसएम ३४० डीएलएफ

कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का आईपी पंजीकरण संo. IBBI/IPA-002/IP-N00372/

अंतरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के | 70/15, 2 फ्लोर, अशोक नगर, नई दिल्ली-110018

पत्र-व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और कार्यालयः डीएसएम ३४० डीएलएफ ट्रेड टॉवर,

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के स्थौरे वहां भौतिक पताः डीएसएम ३४० डीएलएफ ट्रेड टॉबर,

यह स्चना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने फोर्थ डायमेंशन सोल्हान्स

लिमिटेड की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 25 ज्लाई. 2019 को प्रारंभ करने का आदेश

दिया है। हालाँकि ३०.०७.२०१९ को ईमेल प्राप्त हुआ और ३१.०७.२०१९ को आदेश प्राप्त हुआ।

फोर्ध डायमेंशन सोल्युग्स लिमिटेड के लेनदारों से अंतरिम समाधान व्यावसाविक को

प्रविष्टि संख्या 10 के सामने उल्लिखित पते पर 13 अगस्त, 2019 को या उससे पूर्व सबूत सहित

वितीय लेनदार सबत सहित अपने दावे केवल इलैक्ट्रानिक मध्यमों से प्रस्तृत करेंगे। अन्य सभी

लेनदार सबुत सहित अपने दावे व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रानिक माध्यमों से प्रस्तृत

प्रविद्धि सं. 12 के सामने सूचीबद्ध किसी वर्ग का कोई वित्तीय लेनदार प्रविद्धि सं. 13 के सामने

सूचीबद्ध तीन दिवाला व्यावसायिकों में से उस वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के

2017-18/11135

13 अगस्त, 2019

और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का ट्रेड टॉवर, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली 110015

के लेनदारों के ध्यानार्थ

दिनांक 23.07.2019 थाना आई.पी. एस्टेट, दिल्ली में दर्ज है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह

व्यक्ति जिसका नाम सुहेल पुत्र दिलशाद

निवासी झुग्गी नं. सी-519, नजदीक

गुरूनानक अस्पताल, एलएनजेपी कॉलोनी,

दिल्ली उम्र : लगभग 19-20 साल, कद

5'3", रंग : सांवला, चेहरा : लम्बोतरा,

शरीर : पतला, जिसने काले रंग की टी-शर्ट

गहरे नीले रंग की जीन्स पैंट और पांव में

नीजा-मर्थया उपरहार, परगना और तहसील-करछना, इलाहाबाद, उस्तर प्रदेश मे खाता नबर

(सीएकएचएल) की बकाया राशि क. 25,07,737 / – और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

केन फिन होम्स लिमिटेड

बीओ : 43/10, एसपी मार्ग, सिवित लाहन हलाहाबाद मी. : 7626079220,

फोन : 0632—2060680 ई—मेरा : allahabat@canfirhomes.com CIN No. . L8511 0KA1967 PLC 000699

निदेशक

CAREER POINT LIMITED

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005 CIN: L72200RJ2000PLC016272. Phone: 0744-3040000. Fax: 0744-3040050 Website: www.cpil.in, Email: investors@cpil.in

अंसल बिल्डवेल लि.

CIN No.: L45291DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय: 118, ऊपरी प्रथम् तल, प्रकाश दीप भवन, 7, टॉल्स्टाच मार्ग,
नई दिल्ली-110001 फोन: 23353051, 23353052, फैक्स: 91-11-23310639, 23359550, MASCES CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता

बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के

अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 13 अगस्त,

2019 को कान्फ्रेंस रूम, 118, यूएफएफ, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉल्स्टॉय मार्ग,

नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2019 को

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.ansalabl.com के साथ मुंबई स्टॉक

एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

इमेल : info@ansalabl.com वेयसाइट : www.ansalabl.com

NOTICE

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 08, 2019, to consider various items inter alia the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended June 30, 2019 and to consider declaration of Interim Dividend, if any. Pursuant to this, Trading window is closed from Monday, July 1, 2019 to Saturday, August 10, 2019 (both days inclusive).

The said intimation is also available on the Company's website at www.cpil.in and on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

For Career Point Limited Tarun Kumar Jain Place: Kota (Rajasthan) Date : 31st July, 2019 GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

फार्म जी अभिरुधि की अभिज्यक्ति के लिये आपेत्रण (दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

1	विनियपन, 2016 के विनियप	पन 36ए (1) के अवर्गन}
	যুৰ্থিত	विवरण
3	। विभीति ऋगास्य का जम	कालौंबेर एखेडिएट्स प्रश्वेट शिमिटेड
	 कामीर क्रमणाद के निगम्ब को शिव 	13 फारकरी. 2003
	 वह पाधिकान निषये अलगंत कांगीर प्रमाणाक नियम्बर्गकेत्र है 	कम्पनी प्रीवाह्य (ए.ए. क्षेत्र विहल्ली) कम्पनी अधिनिकार, 1956 के अक्षणेत
	 अभिरि ऋमणास्य का क्षिपिट म्हणान सङ्ग्रा/सीमित इथित्व म्हणान सङ्ग्र 	U74140DL 2003PTC 1893
	 व्यापीट श्रमणाय के मजीकृत कामंत्रक एवं प्रधान कामंत्रक (मेरी कोई हो) का मता 	वजीयुन कार्यालयः इं-20, लाजपन रगर-111, वहं दिल्ली- 110024
100	6 वर्षों हिच्च धाक के मंद्रभं में दिवला प्राप्त और को तिथि	18 अरवरी, 2019
	7 अभिकृषि को अभिक्षायित के आमत्रम को तिथि	2 अगस्त 2019
	श्रीता को पाए 25(2) (एवं) के अलग्ते प्रास्तव अनेत्रकों को पाकत उपलब्ध है:	विस्तृत पात्रता मान यह वेबसाइंटः www.halterassoci- ases in पर उपलब्ध है। मुख्या अधीलिक्कित इं-कित अइंडी cirp haliberapl@gmail.comमर रिवरियुक्त प्रक्रिशत हे मानी क स्थानी है।
	 पाए 29ए के अलगंत लागू होने वाले अखोग्जल का सनक जनलक है। 	वेबालइंट www.ibbigov.in पर उपलब्ध । उसे अधीरिविद्वत इं-मेल असंदी: cirphaliberapl@gmail.com पर प्रसाव पुष्टिरक्ल से भी पुण्य को जा सकती है।
1	 अभिकृषि को अभिरुप्रित पुग्लि को अतिक तिथि 	17 अगस्त , 2019
3	 सभावित प्रसाव अवेदयों की अस्वारं सूची जाएँ होने की विवि 	27 अगस्त , 2019
1	2 प्रस्थाई मुची के 9 छी प्रापति जामा करने को प्रतिम तिथि	01 Baret, 2019
100		Dr. American Street

13 सभावित प्रस्तव अवेदको को अतिम सूची जाएँ होने को 11 वितम्बर, 2019 😘 पुरुष्य योजन, मुख्यायन विट्यान, मुचना मेम्नेपियन राजा विज्ञालयूहर पुक्तिस्तर उन्नये अरुगांत विक्रिं न्नवित्र त्राज अधिक जानकारी शब्द करने का तरीका विनियममें के अनुसार क्लेक्ट्रिक मेल से दस्तवेजों को हेकर

🥫 पुरुष्य योजन जान करने की अहिस हिवि 01 अध्यक्तर, 2019 17 पुल्लवकर्मों के बाल पुल्लाव ओजन जान करने का तार्किका पानव क्षेत्रम क्रम कार्न की पहलि पानव क्षेत्रम के अर्गेप (आएफ अरमें) दहतवेज में विनिद्धंट की जाएंगे। हा स्वीकृति के रित्ये निर्मायक मुध्यितम के बाह प्रस्तव जात 10 अवस्था. 2019 करने की अनुसारित शिवि 🥱 पुरत्रव कर्मों का नाम तथा पत्रोकाण प्राद्धा ही मोहन लाल और प्रजीद्धाल स IBBVIPA-002/IP-N00006/2017-11/ 10006 30 बीट्र में कवा-प्रजीवृत पुरुष्क वसमें का नाम, पता तवा हं- औ मोरून लाल जीन, पता: एक-2/28, मेयटर-15, ग्रेटिमी, नई बजनार का बताः स्रो श्रे सुमेशा मैनेजमेंट स्टियुक्त सुन्देवेट 2) पुस्तव क्रमों के सार प्रशास के लिने प्रयोग करने के मिटेड, बी-1/12, आ रुल, सफदाजन एन्यलेक, नई दिल्ली-

22 विस्तृत विकास उपलब्ध हैं 23 जामं जो के प्रकाशन को शिव 2 अगस्त 2019

1. आरमी को बाहे जो भी हो बिना कोई कारण बताये तथा बिना किसी देयता के प्रक्रिया/ आवेदन को निरस्त/ संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है। आरमी/ सीओसी किसी भी समय अपनी स्वेच्छा से ईओआई के मानदड को परिवर्तित कर सकते हैं। कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सौअइंअरपी) को 130 दिनों को अवधि 18 जुलाई. 2019 को समाप्त हो

कको है। सीअहं आरमी अवधि में विस्तार प्राप्त करने के लिये टाफिल को गई आवेटन पर माननीय एनसीएतारी नई दिल्ली मौठ II ने अदेश तिथि 18.7.2019 के माध्यप से 190 दिनों की निधारित अवधि से परे 90 दिनों के लिये लीआईआरमी अवधि बढ़ाने को मजूरी दी है। अलम्बा, इस मामले में 90 दिनों के विस्तार के बाद सीआईआरमी के समापन की अनुमानित निम्नि 16 अक्टूबर, 2019 है। : इच्छुक पार्टी स्पीद्ध पनीकृत डाक/ हामीं हाम डेलिवरी अमवा इंपेल द्वारा ऊपर प्रपत्र नी के क्रम स. 21 पें

रिजॉल्युशन प्रॅफिशनल

विभिन्न मने पर 17 अगस्त. 2019 के 1700 बने या उससे मूर्व मुहरबट लिफाफे में ईओआई नमा कर सकते.

कालीबेर एसोसिएइस प्राईवेट लिपिटेड के पापले में पंजीकरण सं TBBVTPA-002/TP-N00006/2016-17/10006 आईबीबीआई में पंजी: पता: एफ-2723, सेक्टर-15, रोहिणी, गई दिल्ली-110039 तिथि: 23:2019 स्थान: नई दिल्ली

1 Dr Lal Path Labs

Dr. Lal PathLabs Limited Corporate Identification Number: L74899Dt 1995PtC065388 Registered Office: Block E, Sector-18, Rohm, New Delh-110085 Corporate Office: 12* Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector 38, Gurugia in 122001, Halyana Tal.: +91-124-3016500; Fax: +91-124-4234468 Wabsite: www.dalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on समाप्त तिमाही हेत् अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अनुमोदित किया Tuesday, August 13, 2019 to inter-alia, consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019.

This intimation is also available on the Company's website at www.lalpathlabs.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nse india.com.

For Dr. Lal PathLabs Limited

Date: August 01, 2019 Place: Guruqram

Rajat Kalra Company Secretary and Legal Head

THE ASSOCIATED JOURNALS LIMITED

Registered Office: Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110002 Corporate Identification Number- U22122DL1937PLC215943 Phones: 011-47636300, Fax: 011-23313458 Email: nationalheralddelhi@gmail.com

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 81वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 को दोप. 12.00 बजे हेराल्ड हाउस, 5–ए, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा। कम्पनी ने अपने सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य बुहस्पतिवार, 1 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के

नियम 20 के अनुसरण में सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा अन्य स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के इंस्टा वोट ई-वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जा रही है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से व्यवसाय का निष्पादन किया जा सकता है। सदस्यों का वोटिंग अधिकार मंगलवार, 20 अगस्त, 2019 ('कट-ऑफ तिथि') को कम्पनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के आनुपातिक होगा।

एजीएम में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपरिधत हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को प्रदर्शों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार की गई लामार्थी स्वामियों की सूबी में दर्ज है, केवल वहीं रिमोट ई—वोटिंग के साथ ही एजीएम में पोलिंग पेपर के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद

कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है. वह insta.vote@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या फोन नं. 022—49188000 पर अनुरोध के माध्यम से लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदापि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए इंस्टा वोट के साथ पंजीकृत है तो वह अपना वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपना वोट दे सकता है। ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 24 अगस्त, 2019 को प्रातः 10.00 बजे प्रारंभ होगी और सोमवार, 26 अगस्त, 2019 को सायं 5,00 बजे बंद होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के शेयरधारक अपना वोट

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। 26 अगस्त, 2019 को साथ 5.00 बजे के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना को देखें। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पृष्ठे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और इंस्टावोट ई–वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहा. उपाध्यक्ष, एलआईआईपीएल को ई–मेल enotices@linkintime.co.in पर लिखें या फोन नं. 022—49186000 पर सम्पर्क करें। कृते दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड

तिथिः 01.08.2019 कंपनी सचिव

ADITYA BIRLA
CAPITAL

स्थानः नई दिल्ली

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

फेजीकृत कार्यालयः इंडियन रेबॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात- ३६२२६६ CIN No.: U65990GJ1991PLC064603 परिशिष्ट 17

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत] कब्जा सूचना (अचल सम्पति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, 3रा तल, यूको बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित थारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सुचना तिथि 09.05.2018 जारी कर ऋणधारकों/ सह– ऋणधारकों: श्री हरक्षमृत सिंह, श्रीमती रतन दीप कौर तथा ग्लोबल बिल्डटेक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से ७० दिनों के भीतर सूचना में अर्णित राशि रु. 75,37,511/- (रुपये पचहत्तर लाख सैतीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) वामस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने मैं विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि क्षाज, चौबीस जुलाई, दो हजार उन्नीस को अधीहरताश्ररी ने उब्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताश्ररी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 75.37.511/- (रुपये पचहत्तर लाख सैतीस हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड, 3रा तल, यूको बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती

भू तल टाटन हाटस नं. यू-18/ 28, डीएलएफ फैज-III, गुड़गांव ग्राम नाथूपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा– 122001 में स्थित हरक्षमृत सिंह के स्वामित्व में सम्मत्ति का इक्विटैबल मार्टगैज। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

तिथि: 02.08.2019

स्थानः गुडुगोटा

AMIN TANNERY LIMITED

SUPER TANNERY LIMITED CIN No.: L19131UP1984PLC00621

Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P) Ph. No.: +91 512 2304077 Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 5:00 PM, on Saturday, 10* August, 2019 at 187/170, Jajmau, Kanpur 208010 inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June,

CIN No.U19115UP2013PLC055834

Arti Tiwari Place:- Kanpur (Company Secretary) Date:- 01.08.2019 Date:- 01.08.2019

Regd. Office: 187/170, Jajmau, Kanpur - 208 010 (U.P): Ph.: +91 7522000370, Fax: +91 512 2460792,

Email: share@supertannery.com, Web: www.supertannery.com

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at

4:00 PM, on Saturday, 10" August, 2019 at its registered office inter-alia, to consider and approve

the Unaudited Consolidated Financial Results of the Company for the guarter ended 30th June, 2019. For Super Tannery Limited

R.K. Awasthi

Place:- Kanpur

आरओएसएआरबी, 1ल1 तल, सरयुग कॉम्प्लैक्स, नेहरू नगर, पाटलिपुत्रा, पटना-१३, मोबाईंश ने ७०७०१७६३९९



बैंक ऑफ बड़ीदा भारत सरकार का उपक्रम)

For Amin Tannery Limited

हंमेल: sarptn@bankofbaroda.co.in ई-नीलामी बिक्री सूचना

में रीचे अपित ऋष के ऋणधारकों तथा मार्स्टरों के लिए यह एउस है।

2019.

Sd/-

CIN: U45200DL2013PTC258204 पंजीकृत कार्यातमः एव पं एप- 109. दूधर ततः, अयुत्त फावतः एन्वतेव, जापिया पण्य, ई-पेल अर्ह्छीः ek@aad la mgroup.in

आधार प्रॉपमार्ट प्राईवेट लिमिटेड

केंद्र एरकार, उत्तरी मैंड के एमध कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धार 13 की उप-धारा (4) तजा कंपनी (निगमन) निममावली, 2014 के निमम 30 के उप-निमम (5) के क्लॉज (ए) के

क्रधार ऑपमार्ट आईबेट लिमिटेड जिएका अंबीकृत कार्मालमः एव रं. एन- 109, दूसरा राज अयुक्त फ्रांक्त एन्वलेव, अधिमा नगर, दिल्ली - 110025 में हैं, के मामले में एतद्भार अप जनत को एकिर किया जाता है कि "र र धेर दिस्ती" से "उत्तर प्रदेश रुज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यातम को परिवर्तिर करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 01 अगात, 2019 को अमीजिर अग्राधात्म अमारमा में पहित विशेष प्रात्वव

कंपनी के पंजीवृत कार्यालय के एए प्रात्मवित परिवर्तन से अदि किसी व्यक्ति का किर रमावित होता हो, वे एपग्रीए-21 पोर्टल (www.mca.gav.in) पर निवेशक लिकामत ९४७ द्वाबित करें अथवा उएके नीचे वर्षित पंजीकृत कार्यातम में आवेदक कंपने को उएकी एक श्रुठि के स्वय हुए सुष्टम के प्रकाशन की विधि से चौदक दिनों के भीतर अपने फिर की उक्ति तथा अपनि के कारमों का उल्लेख कही हुए एक उपन पत्र द्वार गर्मार्वत अपने अपित क्षेत्रीय निदेशक, उसरी क्षेत्र, थी-2 विंग, 28 तक, पर्यावरूप स्वय, सीवीओ

कॉम्प्लैवत, वर्ष दिल्ली-110003 में जमा करें मा जमा करएं स पंजीकृत छक हो भेजें। काः एक रं एर- 109. दूसर ततः, अयुक्त काल एक्टरेक, अधिया रगर, दिल्ली-110025 कृते एवं के लिये अस्पार प्रोपमार्ट प्राईवेट लिमिटेड BOOK 2-

एथी एंग्रॉधर्तों को एचित किया नाता है कि अधोतिश्वित एप्पति बैंक ऑफ बड़ीटा के पड़ में प्रतिभृत है निएका एफिएी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभृत केडोटर रे कब्ज कर लिया है, को वैंक के वकाए को वसूनों के लिए ''बैसा है जहां है उमा जो थी वहां है आधार'' पर 27 8 2019 को है। सेलापी द्वारा विक्री को बाएगी। बदि ये उक्त गीलामी को लिम तक अपनी एंपूर्ण बकामा देमता का भूगतान नहीं काते हैं तो उक्त लिम को हूं नीलामी बिक्रो के आमोबन के विषय

ऑब लाइन बोली बया करने को अंतिय लिमि: 263 2019 के 500 बाते अप सप्पत्तियों का दिवरण

है. बीला में 27 8 2019 को 11 अने पूर्वा हो 4 अबे अप उक्त 5 पिबट के एउट: बिह्नाए के हाम अम्मीबिट की नाए ही। कब्गा की तिबि

द्धगधारक, गारन्टर एवं बेस शास्त्रा मांग सूचना तिथि कुल बकाया पै. पा फहारानी राहरा पिला

सप्पत्ति का ईएपडी बोली वृद्धि सीरा श्री अरिचन्द कुमार रिष्ठ के नाम में मगौकृत अहंएनआर दरनाहोग स. 1901. निमि 26.03.2016. पाप 397800000.00 1) श्री उपा प्रकर सिह 3420 वर्ग मी. की भूमि जो खाता न.137 . खसरा 2) श्री अविनाश सिह न. ३२०. प्राप ईलाहाबाश, परमग एव तहसील अहरनआर औ अरिवाद कृपार सिंह दादरी, जिला गीलप बुध नगर, उ.प्र. में स्थित है। 3979000.00 वौहरीः उत्तरः पूर्वः पैन रोड. दक्षिणः पूर्व ओ तथे तमां ड) श्रीपती रिक्फ्गी देवी अन्य सम्पति, उत्तर पश्चिमः अन्य सम्पति 5) श्री कृष्ण कृपार दक्षिण-परिवयः अन्य सप्पति 6.11.37133.00 1000000,00 बेस शासाः e Vijaya Bank । ब्याग । अन्य

इंब्कुक बोलीदानाओं को पै. ई-प्रोक्योपेंन्ट टेक्नोलॉगीग लिमिटेड Auction Tiger, राप्पकं व्यक्ति अली गौहर. पो.: 6352490780. सपोटं 9374519754. मेलः Bihar@auctiontiger.net से यूजर आइंडी/पास्वडं प्राप्त करना होगी। नौलाणी विक्री वैवासाईट https://bob.auciontiger.net के माध्यम से ऑनलाइन होगी। ई- नौलामी में भाग लेने से लिए बोलीदाता इस्लाक्षर प्रमाण मत्र का धारक होना वाहिए, इंएमडी का भुगतान खाला नं. 60310015181219. आईएकएससीः BARBOSARPTN (मांववां कैरेक्टर शून्य है) में आसीजीएस/एनईएकटी द्वारा इंएमडी का पुगतान करना होगा। सफल बोली को उसी दिन 25% बोली राशि (इंएमडी राशि सहित) का पुगतान करना होगा तथा शेष पुगतान 15 दिनों में किया जायेगा अन्यभा इंप्पड़ी जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को फिर से बिक्री को जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय बोलों को स्वीकार या निरस्त करने अभवा नौलामों को स्भणित/निलम्बिन करने का अधिकार है। नियमों एवं शती के जिल्ला विवारणों के लिये कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की जेबसाईट http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm देखें सम्पकं

तिबि: २६.०७.२० ११ हस्ता८- प्राधिकृत अधिकारी स्थानः पटना बैंक ऑफ बड़ौदा

(निदेशका) DIN: 06655748

कदमकुं आ शास्त्रान पटना আর্নীন नियम एवं शतैः

व्यक्ति श्री मंकन कु मार, प्राधिकृत अधिकारी, आरओ एसएआखो, पटना, मो.: 7070176399

हस्ता/-(जसवंत सिंह)

अंसल बिल्डवेल लि. के लिए

वरि.वी.पी. एवं कम्पनी सचिव

हस्ता./-

(अशोक बाबू)

FCS No.: 2328

110029 एं-मेल अएंडी: cirp.kaliberapl@gmail.com जैस्त कि उत्पर क्रम सं 21 में वर्षित है।

हैं। तिकाफेर इंपेल में "कालीबेर एसोसिएट्स प्राइवेट लिपिटेड के लिये ईओआई" शीमीकित किया जाना

Regd. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Email Id: skylineindia96@gmail.com; Tel No.: +91 11 23541110 CIN: L51909DL1996PLC075875, Website: www.skylineindia.co.in Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Saturday, August 10th, 2019 at 11:00 A.M.

nter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along

SKYLINE INDIA LIMITED

with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended as on The said Notice may be accessed on the Company's website : http://www.skylineindia.co.in and may also be accessed on the Stock Exchange websites at https://www.msei.in Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public

on August 10", 2019.

(Dinesh Kumar Shindi) Place: Delhi Date: 31.07.2019 Company Secretary & Compliance Officer

प्रका सं आईएनली-26 [कंपनी (निगमन) निममावली, 2014 के निमम 30 के अनुपालन हैं]

के अनुगार कंपनी के क्रेमेरिंडम ऑफ एगोगिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कप्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यक कंपनी के रू एरकार के पास अवेदन करने वर प्रस्ताव करते हैं।

तिषि: 28.2019 ल्यानः दिल्ली

विधिन कुमार

For Skyline India Limited

सप्पति का आरक्षित पुरुष

PG PG ELECTROPLAST LIMITED CIN: L32109DL2003PLC119416 Regd. Office: DTJ209, 2nd Floor, DLF Tower- B, Jasola, New Delhi -110025 PH: 91-120-2569323

Email: investors@pgel.in; Website: www.pgel.ir

Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company has been scheduled on Saturday, 10/08/2019 at 4:30 P.M. at Corporate office at P-4/2 to 4/6, Site B. UPSIDC Indl. Area, Suraipur, Greater Noida (U.P.) 201306 to, inter alia, consider & approve Unaudited Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2019.

Company's website - www.pgel.in and may also be accessed at website of stock exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com

This intimation is also available on

Further, it is notified that window for trading in shares of the Company shall continue to remain closed till Monday, August 12, 2019.

For PG Electroplast Limited Place: Greater Noida (Promod Gupta) Managing Director Date: 01.08.2019

Registered Office: CP Tower 1, Road No. 1, IPIA, Kota, Rajasthan 324005

CAREER POINT LIMITED

CIN: L72200RJ2000PLC016272, Phone: 0744-3040000, Fax: 0744-3040050 Website: www.cpil.in, Email: investors@cpil.in

NOTICE

Notice is hereby given in pursuance to Regulation 29 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 that a meeting. of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, August 08, 2019, to consider various items inter alia the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter ended June 30, 2019 and to consider declaration of Interim Dividend, if any. Pursuant to this, Trading window is closed from Monday, July 1, 2019 to Saturday, August 10, 2019 (both days inclusive).

The said intimation is also available on the Company's website at www.cpil.in and on the Stock Exchange website at http://www.bseindia.com and http://www.nseindia.com.

> For Career Point Limited Tarun Kumar Jain GM (Corporate & Legal Affairs) & Company Secretary

AMIN TANNERY LIMITED

CIN No.U19115UP2013PLC055B34 Regd. Office: 15/288 C, Civil Lines, Kanpur - 208 001 (U.P) Ph. No.: +91 512 2304077, Email: share@amintannery.in, Web: www.amintannery.in

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at 5:00 PM, on Saturday, 10th August, 2019 at 187/170, Jajmau, Kanpur 208010 inter-alia, to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, For Amin Tannery Limited

Place:- Kanpur Date:- 01.08.2019

Mfg growth inches up in July: PMI

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 1

THE MANUFACTURING SECTOR activity improved in July as new work orders and output strengthened slightly from the previous month, leading to a moderate increase in employment, a monthly survey said on Thursday. The IHS Markit India Manufacturing Purchasing Managers Index rose to 52.5 in July from 52.1 in June as companies scaled up production in response to a quicker upturn

This is the 24rd consecutive month that the manufacturing PMI has remained above the 50-point mark. In PMI parlance, a print above 50 means expansion, while a score below that denotes contraction.

"Followingaslowdownin growth in the opening quarterof fiscal year 2019/2020, some momentum was regained in July, Measures for factory orders, production and employment improved in the latest month, although rates of expansion remained below

(₹ in lakhs)

trend," said Pollyanna de Lima, Principal Economistat IHS Markit. Asper the survey, the main factor boosting production was a sustained rise in new work inflows.

"Survey participants

linked the uptick in growth

to a pick-up in demand,

mostly stemming from successful marketing efforts, competitive pricing and favourable public policies," Limaadded. Lima further noted that

the domestic market provided the main impetus to sales growth, while external

sales rose moderately since April 2018, as factories took a hit from subdued global trade flows. On the prices front, the survey said the overall rate of inflation was at a three-month low and well below its long-run average.

"The relatively-negligible increases in input costs and output charges, signalled by the PMI survey in July, suggest that we will likely see a further reduction in India's benchmark interest rate as the RBI continues itseffort to support economic growth," Lima said.



IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Regd. Office: Trident Complex, Raikot Road, Barnala-148101, Punjab

Place: Kota (Rajasthan)

Date : 31st July, 2019

CIN: L24116PB1986PLC007030

Ph.+91-1679-244701-07, Fax:+91-1679-244708, E-mail: contact@iolcp.com, Website: www.iolcp.com

NOTICE OF 32" ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 29 August 2019 at 11:00 A.M. at its Registered Office at Trident Complex, Raikot Road, Barnala, Puniab to transact the businesses, as specified in the Notice convening the AGM.

The Notice of AGM has been sent to the members whose email ID are registered with Depository Participant/Company and to other members through permitted mode alongwith Annual Report for the financial year ended 31 March 2019. The said Notice and Annual Report are also available on the website of the Company at www.iolcp.com. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM on

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members, the facility to cast their vote electronically (remote e-voting) through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting").

The remote e-voting period shall commence on 25 August 2019 at 09:00 A.M. and ends on 28 August 2019 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date or time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners on the cut-off date i.e. 22 August 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the meeting

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares on the cut-off date i.e. 22 August 2019, may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining user ID and Password is also described in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and CSDL's Website. If the member is already registered with CDSL for e-voting, then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have already exercised their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility of venue e-voting or polling paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote evoting shall be able to vote at the meeting through venue e-voting or polling paper.

In case you have any queries/issues/grievance connected with e-voting, you may refer the frequently asked question ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013, Phone 1800225533.

Notice further given that pursuant to the Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23 August 2019 to 29 August 2019 for the

By order of the Board for IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Place: Barnala Date: 01 August 2019

[Krishan Singla] Vice President & Company Secretary

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: SPARC, Tandalja, Vadodara - 390 012 Corporate Office: Sun House, Plot No. 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon- East, Mumbai - 400 063 Tel: 022-43244324/022-43241234 CIN: L24230GJ1993PLC019050, Website: www.sunpharma.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Twenty-Seventh Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, August 28, 2019 at 03:15 p.m. at Crystal Hall, Grand Mercure Vadodara Surya Palace, Opposite Parsi Agyari, Sayajigunj Vadodara - 390 020, Gujarat, India ("Meeting"), to transact the business as mentioned in

The Annual Report for the financial year 2018-19, Notice of 27th Annual General Meeting Attendance Slip & Proxy Form have been emailed to all the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Physical Copies of the Annual Report inter-alia containing the Notice of 27th Annual General Meeting have been dispatched, through the permitted mode, at the registered address of those Members who have not registered their email addresses and members who have requested for a physical copy in addition to sending an e-mail. The Notice of 27th Annual General Meeting, Attendance Slip & Proxy Form and the Annual Report for 2018-19 are also available on the website of the Company www.sunpharma.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Further pursuant to the provisions of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the Meeting. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has appointed CDSL to provide e-voting facility to its members. The website for remote evoting is: www.evotingindia.com. The remote e-voting period shall commence on Sunday, August 25, 2019 at 09:00 a.m. and shall end on Tuesday, August 27, 2019 at 05:00 p.m. During this period, shareholders of the Company may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 21, 2019 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting through electronic voting system. The facility for voting by electronic voting system will be made available for members present at the meeting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 21, 2019 and whose PAN is not registered with the Company may obtain the e-voting code for the purpose of remote e-voting by writing to the Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or secretarial@sunpharma.com or may contact the undersigned.

Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of Meeting. In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under 'Help' section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any queries/ grievances pertaining to remote e-voting, the Members/ Beneficial Owners may write to Mr. Rakesh Dalvi, Manager - CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013, Maharashtra, India or send an e-mail on helpdesk.evoting@cdslindia.com or may call on 1800225533. The Company is pleased to provide the facility of live webcast of proceeding of 27th Annual General Meeting of the Company from 3:15 pm onwards on Wednesday, August 28, 2019 Members who are entitled to participate in the Annual General Meeting can view the proceedings of the AGM by logging on to the e-voting website of CDSL at www.evotingindia.com. On this page, click on the link Shareholders / Members, the web cast link would be available adjacent to EVSN No. 190715011 of the Company.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, August 22, 2019 to Wednesday, August 28, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the Meeting and for the payment of Dividend. Dividend shall be paid on or before August 30, 2019 to the Equity Shareholders of the Company whose name stand on the Register of Members as beneficial owners at the close of business hours on Wednesday, August 21, 2019, as per the list provided by NSDL & CDSL in respect of shares held in electronic form and as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transpositions and transmissions lodged with the Company on or before Wednesday, August 21, 2019.

> By order of the Board of Directors For Sun Pharmaceutical Industries Limited Ashok I. Bhuta

Arti Tiwari in factory orders. (Company Secretary) Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009 Tel: 079-26444404-06; Fax: 079-26444403 Email: ahmedabad@mafatlals.com; Website: www.mafatlals.com Corporate Identification No.: L17110GJ1913PLC000035

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED

FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2019 Standalana Cancalidated

1000	PARTICULARS	Standalone			Consolidated				
Sr. No.		For the quarter ended on		For the year ended on	For the quarter ended on			For the year ended on	
		30th June, 2019 Unaudited	31st March, 2019 Unaudited	30th June, 2018 Unaudited	2019	30th June, 2019 Unaudited	31st March, 2019 Unaudited	30th June, 2018 Unaudited	2019
1	Total Income from Operations	27,606.21	25,374.67	31,937.08	1,05,457.89	27,611.95	25,379.17	31,942.09	1,05,475.69
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(589.05)	(2,921.67)	(1,190.81)	(9,645.24)	(589.05)	(2,921.67)	(1,190.80)	(9,645.24)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(520.23)	(10,478.24)	(1,190.81)	(18,007.04)	(520.23)	(10,478.24)	(1,190.80)	(18,007.04)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(520.23)	(10,478.24)	(1,190.81)	(18,007.04)		(10,478.24)		(18,007.04)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)								
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	(8,015.73)	(15,102.21)	(8,724.13)	(29,172.42)	(8,015.73)	(15,102.21)	(8,724.12)	(29,172.42)
6	Equity Share Capital	2	1-2	-	1,391.28	2	2	1/2	1,391.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	8	72	2	49,307.76	Ž.	8	792	49,314.69
8	(Loss) / earnings per share (face value of ₹ 10/- per share) (not annualised)				*** *** *** *** **********************				
	- Basic and Diluted	(3.74)	(75.31)	(8.56)	(129.43)	(3.74)	(75.31)	(8.56)	(129.43)

Place: Nadiad

Date: 1* August, 2019

The said results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 1st August, 2019.

The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter ended 30th June, 2019 filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the website of the Company at 'www.mafatials.com' and also available on the website of Stock Exchange at 'www.bse india.com'.



By Order of the Board For Mafatlal Industries Limited H.A.MAFATLAL CHAIRMAN DIN:-00009872

Reliance

Wealth Sets You Free

MUTUAL FUND



Spansors Reliance Capital Nippon Life Insurance Company

RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbal - 400 055. Tel No. +91 022 3303 1000 • Fax No. +91 022 3303 7662 • www.rellancemutual.com

NOTICE NO. 50

Record Date August 07, 2019

Notice is hereby given that the Trustee of Reliance Mutual Fund ("RMF") has approved declaration of dividend on the face value of Rs. 10/- per unit in the undernated scheme of RMF, with August 07, 2019 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Dividend (₹ per unit)*	NAV as on July 31, 2019 (₹ per unit)
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II - Dividend Option	0.1686	10.2073
Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II - Direct Plan - Dividend Option	0.1727	10.1959

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.

DIVIDEND DECLARATION

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and **statutory levy, if any.** * The dividend payout will be to the extent of above mentioned dividend per unit or the difference of NAV from the last Specified Transaction Date (Ex. NAV) to the Record Date mentioned above, whichever is higher. However the payout will be subject to the available distributable surplus in the Scheme as on Record date.

The specified Transaction period for Reliance Interval Fund - Quarterly Interval Fund - Series II is on 7th & 8th August, 2019 (both business days). The following shall be applicable for application received during the specified transaction period.

For Subscriptions including Switch-ins under Dividend Option

In respect of valid applications for subscriptions received up to 3.00 p.m. on the aforesaid Record Date along with a local cheque or a demand draft payable at par at the place where the application is received, the Ex-Dividend NAV of the day on which application is received shall be applicable. The investors will not be eligible for dividend declared, if any, on the aforesaid Record Date.

In respect of valid applications for subscription received after 3.00 p.m. on the aforesaid Record Date and/or up to 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the said second day shall be applicable; In respect of valid applications received after 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the next working day shall be applicable, provided such a day is/ has been declared as a Specified Transaction day for the fund. Otherwise, the application will be liable for rejection.

In respect of purchase of units in Income/Debt Oriented scheme with amount equal to or more than Rs 2 lakhs, the applicable NAV shall be subject to the provisions of SEBI Circular Cir/IMD/DF/19/2010 dated November 26, 2010 and CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012 on uniform cut-off timings for applicability of NAV. With regard to Unit holders who have opted for Dividend Reinvestment facility, the dividend due will be reinvested by allotting Units for the Income distribution / Dividend amount at the prevailing Ex-Dividend NAV per Unit on the record date.

For Redemptions including Switch-out under Dividend Option

In respect of valid applications received up to 3.00 p.m. by the Mutual Fund, on the aforesaid Record Date the Ex-Dividend NAV of the date of receipt of application shall be applicable and the investors will be eligible for the dividend declared on the aforesaid Record Date. In respect of valid applications received after 3 p.m. on the aforesaid Record Date and/or up to 3.00 p.m. on the second day of the Specified Transaction Period the closing NAV of the said second day shall be applicable. For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement

of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend plan/option of the Scheme as on record date. All unit holders under the dividend plan/option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the dividend.

> For RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED (Asset Management Company for RELIANCE MUTUAL FUND)

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Authorised Signatory

NHAI not to tap EPFO funds this year too

Budget allocation and approval for NHAI



SURYA SARATHI RAY New Delhi, August 1

FOR THE SECOND year in a row, the National Highways Authority of India (NHAI) is unlikely to borrow from the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) in an effort to rein in the cost of funds. It had borrowed ₹10,000 crore each from the EPFO in 2016-17 and 2017-18, but refrained from borrowing from the retirement fund body in 2018-19 again as its rates were higher.

Sources said EPFO's portfolio managers are not willing to lend the NHAI at anything below 8%, which the latter finds a bit expensive as its average cost of funds hovers a trifle below 8%. The NHAI is authorised to raise up to ₹75,000crore debt in the current fiscal it raised ₹60,000 crore in 2018-19.

NHAI chairman NN Sinha had earlier told FE that out of the total borrowings, ₹40,000 crore is expected to come from the National Small Savings Fund. Another ₹25,000 crore may come from LIC. This apart, it might raise around ₹5,000 crore through masala bond. It will also raise money through tax-free bonds from the domestic fund.

The total budgetary support for the NHAI in 2019-20, including estimated cess and plough back of toll and highway monetisation proceeds, is ₹36,691 crore — around 1.7% less than ₹37,321 crore accorded in 2018-19 (RE).

Besides, it hopes to raise around ₹9,000 crore by giving

around 1,000 km of highways on long-term lease under the toll-operate-transfer (ToT) model.The government had, in the Budget for 2018-19, permitted the NHAI to raise funds from the market through infrastructure investment funds (InvITs).

While for the NHAI, the cost of borrowing is the primary criterion for raising debt from any institution, the EPFO, on the other hand, always looks for getting higher rate of returns. Depending on its return on investments, the EPFO pays its subscribers interest on their deposits.

Under pressure to maximise returns from its investments, the retirement fund body pruned the interest rate on provident fund deposits for its subscribers to 8.55 % for 2017-18, the lowest in five years. In 2018-19, the Central Board of Trustees (CBT), the apex decision-making body of the EPFO, approved 8.65% rate of interest, which it is yet to be ratified by the finance ministry.

The NHAI has been tasked with executing almost the entire 24,800-km highway construction work under the first phase of the Bharatmala programme from 2018-2022. Last fiscal, the NHAI awarded 2,222 km highway projects, less than the 7,397 km awarded in 2017-18. It constructed 3,320 km in 2018-19, a little higher than 3,071 km in 2017-18.

hopes to award 6,000 km of highway and construct a record 4,500 km.

For the current fiscal, it

Bank loan fraud case: ED attaches ₹480-cr assets of REI Agro

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 1

THE ED ON Thursday said it attached assets worth over ₹480 crore of REI Agro, a prominent basmati rice processing company, in connection with a multi-crore-rupee bank loan fraud case.

The central agency issued a provisional attachment order under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) against the firm, it said in a statement. In 2016, the ED had lodged a money-laundering against the company, which claims to be the world's largest basmati rice processing firm.

The alleged bank loan fraud is pegged at ₹3,871.71 crore and it is being probed by the Central Bureau of Investigation (CBI) too.

The attachment worth ₹481.04 crore largely comprises land, buildings, plants and machinery of the rice mill unit of the company, office space held by its controlled companies and wind farms owned by REI Agro, according to the statement.

It added that the company

and its directors - Sandip Jhunjhunwala and Sanjay Jhunjhunwala — and others had availed of credit facilities from various banks under a consortium arrangement that included the UCO Bank flagship corporate branch and had defrauded the banks from 2013 onwards.

The alleged fraud, to the tune of ₹3,871.71 crore, was perpetrated by fraudulently diverting funds for purposes other than those for which the same were sanctioned, the ED said.

It said Sandip Jhunjhunwala, who was arrested by the agency in the case, and others "diverted" the funds, sanctioned as working capital loan by 14 banks under the consortium led by UCO Bank.

Date: August 01, 2019

Place: Mumbai

Compliance Officer



Mumbal

August 01, 2019